



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 8, 1982/फाल्गुन 17, 1903

No. 90]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 8, 1982/PHALGUNA 17, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1982

का० भा० 130(अ).—प्रेस परिषद् (सदस्यों के नाम निर्देशन की प्रक्रिया) नियम, 1978 के नियम 3, 4 और 5 के साथ पठित प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (5) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्यों के रूप में उक्त धारा की उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया गया है, अर्थात्:—

श्रमजीवी पत्रकार—सम्पादक [धारा 5 (3) (क)]

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. श्री मरुण शौरी          | } | भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों के सम्पादक। |
| 2. श्री एस० के० बोस        |   |  |
| 3. श्री ओ० पी० शाह         |   |  |
| 4. श्री विनोद मिश्र        | } | भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के सम्पादक।  |
| 5. श्री एस० रामस्वामी "जौ" |   |  |
| 6. श्री डी० एम० सोदी       |   |  |

श्रमजीवी पत्रकार—नैर-सम्पादक [धारा 5 (3) (क)]

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 7. श्री एस० विश्वम्   | } | श्रमजीवी पत्रकार, जो भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों से भिन्न समाचारपत्रों के सम्पादकों से भिन्न हैं। |
| 8. श्री ए० राधवन      |   |   |
| 9. श्री भार० रंगराजन् |   |   |

10. श्री एन० के० त्रिखा
11. श्री रणजीत राय चौधरी
12. श्री शरत् त्रिवेदी
13. श्री विजय पी० नायक

} भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के सम्पादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार।

समाचारपत्रों के स्वामी या उनका प्रबंध चलाने वाले व्यक्ति [धारा 5 (3) (ख)]

14. श्री नरेन्द्र तिवारी
15. श्री सी० भार० ईरानी
16. श्री हरभजन सिंह
17. श्री प्रेम चन्द वर्मा
18. श्री राजमोहन गांधी
19. श्री प्रतुर संगतानी

} बड़े समाचारपत्रों के स्वामी या उनका प्रबंध चलाने वाले व्यक्ति।  
} मझोले समाचारपत्रों के स्वामी या उनका प्रबंध चलाने वाले व्यक्ति।  
} छोटे समाचारपत्रों के स्वामी या उनका प्रबंध चलाने वाले व्यक्ति।

समाचार अधिकरणों का प्रबंध करने वाले व्यक्ति [धारा 5 (3) (ग)]

20. श्री मनप्रियाम पंकज

शिक्षा और विज्ञान, विधि और साहित्य तथा संस्कृति के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति [धारा 5 (3) (घ)]

21. प्रो० उषा एच० मेहता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट।

22. श्री रणजीत महन्ती } भारतीय विभिन्न पत्रिषद् द्वारा  
नामनिर्दिष्ट  
23. प्रो० उमाशंकर जोशी } साहित्य अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट

समूह सदस्य [धारा 5 (3) (ङ)]

24. श्री एच० के० एल० भगत } लोक सभा के सदस्यों में से लोक  
25. श्री एडमंडो फेलीगे } सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट  
26. प्रो० अजीत कुमार मेहता }  
27. डा० रफीक जकारिया } राज्य सभा के सदस्यों में से राज्य  
28. श्री पीयू मावी } सभा के सभापति द्वारा नाम-  
निर्दिष्ट ।

[फाइल संख्या 4/13/81-प्रेस]

जे० के० भट्टाचार्य, सयुक्त सचिव

# MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, The 8th March, 1982

S.O. 130 (E):— In pursuance of sub-section (5) of section 5 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978) read with rules 3, 4 and 5 of the Press Council (Procedure for Nomination of Members) Rules, 1978, the Central Government hereby notifies the names of the following persons nominated as members of the Press Council of India under sub-section (3) of the said section namely:—

## Working Journalists—editors [Section 5(3) (a)]

1. Shri Arun Shourie } Editors of newspapers other  
2. Shri S.K. Bose } than Indian languages news-  
3. Shri O.P. Shah } papers.  
4. Shri Binod Mishra } Editors of Indian languages  
5. Shri S. Ramaswamy 'Cho' } newspapers.  
6. Shri D.S. Sodhi }

## Working journalists— other than editors [Section 5 (3)(a)]

7. Shri S. Viswam } Working journalists other than  
8. Shri A. Raghavan } editors of newspapers other  
9. Shri R. Rangarajan } than Indian languages news-  
papers.

10. Shri N.K. Trikha } Working journalists other than  
11. Shri Ranajit Roy } editors of Indian languages  
Choudhary } newspapers.  
12. Shri Sharad Dwivedi }  
13. Shri Vijay P. Naik }

## Persons who own or carry on the business of management of newspapers [Section 5 (3) (b)]

14. Shri Narendra Tiwari } Persons who own or carry on  
15. Shri C.R. Irani } the business of management  
of big newspapers.  
16. Shri Harbhajan Singh } Persons who own or carry on  
17. Shri Prem Chand Verma } the business of management  
of medium newspapers.  
18. Shri Rajmohan Gandhi } Persons who own or carry on  
19. Shri Atur Sangtani } the business of management of  
small newspapers

## Persons who manage news agencies [Section 5 (3) (c)]

20. Shri Ghanshyam Pankaj

## Persons having special knowledge or practical experience in respect of education and science, law, and literature and culture [Section 5 (3) (d)]

21. Prof. Usha H. Mehta } Nominated by University  
Grants Commission.  
22. Shri Ranjit Mahanty } Nominated by the Bar Council  
of India.  
23. Prof. Umashankar Joshi } Nominated by The Sahitya  
Academy.

## Members of Parliament [Section 5 (3) (e)]

24. Shri H.K.L. Bhagat } Nominated by the Speaker  
25. Shri Eduardo Falcão } from among members of the  
26. Prof. Ajit Kumar Mehta } House of the People (Lok  
Sabha)  
27. Dr. Rafiq Zakaria } Nominated by the Chairman of  
28. Shri Pilo Mody } the Council of States (Rajya  
Sabha) from among its  
members.

[F. No. 4/13/81-Press]

J.K. Bhattacharya, Jt. Secy.